



JINDAL CAPITAL LIMITED

CIN: L65910DL1994PLC059720

Registered Address: 201, Aggarwal Plaza, Sector-9, Rohini, Delhi-110085, India

November 16, 2024

To
The Department of Corporate Services
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai, Maharashtra-400001

Scrip Code: 530405

Sub: Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2024 under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), we wish to inform you that the un-audited Financial Results of our Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2024 were published in the following Newspapers:

1. Financial Express (English daily); and
2. Jansatta (Hindi daily).

The copies are attached herewith for your reference. Kindly take the same on record.

Thanking You

For Jindal Capital Limited

Sadhu Ram Aggarwal
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 00961850

JINDAL CAPITAL LIMITED

Regd Office: 201, Aggarwal Plaza, Sector-9, Rohini, Delhi-110085

CIN: L65910DL1994PLC059720; Ph No. 011-45578272

E Mail ID: info@jindalcapital.co.in; Website: www.jindalcapital.co.in

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2024

Amount (Rs.) in Lakhs except for Point 8

| Particulars | Quarter ended | | | Half Year Ended | | Year ended (audited) |
|--|---------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------------|
| | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.03.2024 |
| 1 Total income from operations (net) | 68.05 | 109.11 | 145.85 | 177.16 | 193.39 | 354.70 |
| 2 Net Profit / (Loss) for the period (before exceptional items and/or Extraordinary items) | 32.98 | 78.50 | 51.03 | 111.48 | 77.61 | 148.58 |
| 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items and/or Extraordinary items) | 32.98 | 78.50 | 51.03 | 111.48 | 77.61 | 148.58 |
| 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items and/or Extraordinary items) | 32.98 | 78.50 | 51.03 | 111.48 | 77.61 | 89.03 |
| 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 32.98 | 81.98 | 51.03 | 114.96 | 77.61 | 101.22 |
| 6 Equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each) | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 72.08 | 72.08 |
| 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year | 111.48 | 278.40 | 77.60 | 389.88 | 243.70 | 278.40 |
| 8 Earnings per share (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted. | 0.46 | 1.09 | 0.71 | 1.59 | 1.08 | 1.40 |

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on company's website www.jindalcapital.co.in
- The above results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on November 14, 2024.
- Previous periods figures have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors
Jindal Capital Limited
sd/-

Place: Delhi
Date: 14/11/2024

Sadhu Ram Aggarwal
(Chairman-cum-Managing Director)
DIN: 00961850

Securities have been made to the Stock Exchange(s) National
Jaypeeinfotech.com).

For and on behalf of Jaypee Infotech Limited
Devang Pravin Patel
Chief Financial Officer
Aalok Dave
Managing Director & CEO
DIN: 06645714

Immovable Property Rule 8-(1)

Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing
Construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act
read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002,
company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to
the public in general that the undersigned has taken possession
conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrow-
not to deal with the property and any dealings with the property will
need herein under with interest thereon. The borrower's attention is
if the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all
date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold
in by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

| Immovable | Total Outstanding Dues (Rs.) | Date of Demand Notice | Date of Possession |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| g: H.No.-1295 of Khasra no Saran, Tehsil | 906558 is Rs.2,12,747/- (Rupees Two Lakh Twelve Thousand Seven Hundred and Forty Seven Only) & 908315 is Rs.3,50,235/- (Rupees Three Lakh Fifty Two Thousand Two Hundred and Thirty Five Only) & 935729 is Rs.94,988/- (Rupees Ninety Four Thousand Nine Hundred and Eighty Eight Only) | 22-08- 2024 | 12-11- 2024 |
| Property Type: | 944330 is Rs.20,95,314/- (Rupees Twenty Lakh Ninety Five Thousand Three Hundred and Fourteen Only) & 948162 is Rs.98,293/- (Rupees Ninety Eight Thousand Two Hundred and Ninety Three Only) | 09-07- 2024 | 12-11- 2024 |
| ing: Built up a. 64 bearing Moujpur, in the aga Shahdara, FL): Property 0.00 | 983490 is Rs.1,05,709/- (Rupees One Lakh Five Thousand Seven Hundred & Nine Only) & IL10412158 is Rs.41,84,911/- (Rupees Forty One Lakh Sixty Four Thousand Nine Hundred & Eleven Only) | 09-07- 2024 | 12-11- 2024 |
| . 6th Floor, for 137, Noida, 201305. Area r: Super Built 0.336.00 | Rs.22,55,275/- (Rupees Twenty Two Lakh Fifty Five Thousand Two Hundred and Seventy Five Only), | 10-07- 2024 | 12-11- 2024 |

ice: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh
te Office: Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

JAIN MARMO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 47/10, kiran Path, Mansarowar, Jaipur-302020

Phone No. + 91- 294 2441666, 2441777, Fax: + 91- 294 2440581

Website: www.jainmarmo.com EMAIL: jainmarmo_udr@yahoo.com, CIN : L14101RJ1981PLC002419

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER 2024.

Rs. in Lakhs

| Particulars | Quarter Ended 30th September 2024 (Un-Audited) | Quarter Ended 30th September 2023 (Un-Audited) | Half year Ended 30th September 2024 (Un-Audited) |
|--|--|--|--|
| Total income from operations (net) | 35.83 | 13.46 | 143.38 |
| Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | -2.75 | -17.82 | 16.65 |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -2.75 | -17.82 | 16.65 |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -2.22 | -9.00 | 12.22 |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | -2.22 | -9.00 | 12.22 |
| Equity Share Capital | 313.06 | 313.06 | 313.06 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | | | |
| Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic and Diluted: | -0.07 | -0.29 | 0.39 |

(A) The above Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September, 30 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th November 2024

Note:- The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30 2024 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.jainmarmo.com)

On behalf of the Board
For Jain Marmo Industries Limited
sd/-

HEMLATA DANGI
COMPANY SECRETARY

Place:- Udaipur
Date:- 14.11.2024

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN : L31300DL1959PLC003141

Regd. Office: Kanchenjunga, 7th Floor, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

www.hindusthanurban.com, Phone: 011-23310001 (5 Lines), E-mail: investors@hindusthan.co.in

AND LEASING LIMITED

DDL1985PLC020853

are-20 Manohar Lal, Khurana Marg Bara Hindu Rao,
rth Delhi, Delhi, India, 110006

No. 7992313157 | Website: www.snsind.com |

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

(Rs. in Lacs)

| | Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited) | Half Year Ended 30.09.2024 (Unaudited) | Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited) |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 0.14 (14.66) (14.66) | 0.40 (16.58) (16.58) | 0.05 (1.22) (1.22) |
| | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| | (1.48) | (1.67) | (0.12) |

ional and Extraordinary item to report for the above

ed format of Unaudited Financial Results filed with the
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
format of the Financial Results for the quarter and half
le on Company's website: www.snsind.com and also

For SNS Properties and Leasing Limited

Sarthak Agarwal

(Director)

DIN-09785554



